



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 567]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 26, 1981/पौष 5, 1903

No. 567]

NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 26, 1981/PAUSA 5, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)
आवेश

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 1981

का० आ० 914(प्र)/18क/आई०डी०आर०ए०/81:—भारत सरकार के पूर्वपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 445(प्र)18क/आई०डी०आर०ए०/72 तारीख 23 जून, 1972 द्वारा आंध्र साइंटिफिक कम्पनी लिमिटेड, मछलीपटनम नामक संपूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध उक्त आदेश में वर्णित प्राधिकृत व्यक्ति ने 26 जून, 1977 तक, जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है, की पांच वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण किया था और उक्त आदेश, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 407 (अ), तारीख 22 जून, 1977, का० आ० 410(प्र), तारीख 26 जून, 1978 और का० आ० 465(प्र) तारीख 26 जून, 1980 और का० आ० 513(प्र) तारीख 26 जून, 1981 द्वारा 26 दिसम्बर, 1981 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है चार वर्ष छह मास की और अवधि के लिए प्रभावी रखा गया है ;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोक हित में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध छह मास की और अवधि के लिए जारी रखा जाए ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (2) के परन्तुक के साथ पठित धारा 18क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देता है कि उक्त आदेश 26 जून, 1982 तक, जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है, की छह मास की और अवधि के लिए प्रभावी रहेगा ।

[का० सं० 2(18)/80-सी०यू०एस०]

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 26th December, 1981

S.O. 914(E)/18AA/IDRA/81.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) No. S.O. 445(E)/18AA/IDRA/72, dated the 23rd June, 1972 the management of the whole of the industrial undertaking known as the Andhra Scientific Company Limited, Machilipatnam had been taken over by the authorised person mentioned in the said order for a period of five years upto and inclusive of the 26th June, 1977 and the said order is continued to have effect for a further period of four and half years upto and inclusive of the 26th December, 1981 by the orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 407(E), dated the 22nd

June, 1977 S.O. 410(E), dated the 26th June, 1978, S.O. 465(E), dated the 26th June, 1980 and S.O. 513(E), dated the 26th June, 1981;

And, whereas, the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the management of the said industrial undertaking should continue for a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA read with the proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period of six months upto and inclusive of the 26th June, 1982.

[F. No. 2(18)/80-CUS.]

का०आ० 915(प्र)/18 चख/आई० १०आर०ए०/81.—भारत के राजपत्र, प्रकाशरण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 27 जून, 1972 में प्रकाशित भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०आ० 445(प्र)/18क/आई० बी० आर० ए०/72 द्वारा आन्ध्र साइंटिफिक कम्पनी लिमिटेड, मछलीपटनम नामक औद्योगिक उपक्रम (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) का सम्पूर्ण प्रबंध उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क के अधीन 27 जून, 1972 से प्रारंभ होने वाली और 26 जून, 1977 तक, जिसमें 26 जून, 1977 भी सम्मिलित है, 5 वर्ष तक की अवधि के लिए प्रवृत्त किया गया था ;

और उक्त आदेश की अवधि का 26 जून, 1982 तक, जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है, समय-समय पर विस्तार किया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०आ० 624(प्र)/18 चख/आई० बी० आर० ए० तारीख 25 सितम्बर, 1972 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18चख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषित किया था कि राजपत्र में उक्त आदेश के जारी करने का तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी या किसी सचिवा, संपत्ति के हस्तांतरण पत्र, करार, समझौते, पंचाट, स्थायी आदेश या अन्य लिखतों का, जिनका उक्त औद्योगिक उपक्रम एक पक्षकार है, या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू हों, प्रवर्तन 24 सितम्बर, 1973 तक निलंबित रहेगा और उक्त तारीख से पूर्व इसके अधीन प्रवृत्त या ज्वृत्त होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व, 24 दिसम्बर, 1973 तक निलंबित रहेंगे;

और उक्त आदेश की अवधि 26 दिसम्बर, 1981 तक जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है, समय-समय पर बढ़ाई गई थी ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि अनुसूचित उद्योग प्रार्थी वैज्ञानिक यंत्र उद्योग में उत्पादन की मात्रा में कमी को रोकने की दृष्टि से साधारण जनता के हित में ऐसा करना आवश्यक है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18चख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषित करती है कि सभी प्रवृत्त सचिवाओं, संपत्ति के हस्तांतरण पत्रों, करारों, समझौतों, पंचाटों, स्थायी आदेशों और अन्य लिखतों का,

जिनका उक्त औद्योगिक उपक्रम एक पक्षकार है या जो 25 सितम्बर, 1972 के ठीक पूर्व उसको लागू हों, प्रवर्तन निलंबित रहेगा और उक्त तारीख से पूर्व इसके अधीन प्रवृत्त या ज्वृत्त होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व निलंबित रहेंगे ।

यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 26 जून, 1982 तक जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगा ।

[फाइल सं० 2(18)/80-सी०यू०एस०]

चक्र किशोर मोदी, संयुक्त सचिव

S.O. 915(E)/18FB/IDRA/81.—Whereas by the order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) No. S.O. 445 (E)/18AA/IDRA/72, dated the 23rd June, 1972, published in the Gazette of India Extraordinary Part II Section 3, Sub-section (ii), dated the 27th June, 1972, the management of the whole of the industrial undertaking known as the Andhra Scientific Company Limited, Machilipatnam (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) had been taken over under section 18AA of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of five years commencing from the 27th June, 1972 upto and inclusive of the 26th June, 1977 ;

And whereas the duration of the said Order was further extended from time to time upto and inclusive of the 26th June, 1982;

And whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) No. S.O. 624(E)/18FB/IDRA/72, dated the 25th September, 1972 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operation of all the contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders of other instruments in force to which the said industrial undertaking was a party or which may be applicable to it immediately before the publication of the said Order in the Official Gazette shall remain suspended upto the 24th September, 1973, and that all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended upto the 24th September, 1973;

And whereas the duration of the said order was further extended from time to time upto and inclusive of the 26th December, 1981;

And whereas the Central Government is satisfied that it is necessary so to do in the interest of the general public with a view to preventing fall in the volume of production in the scheduled industry, namely the scientific instruments industry;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) read with sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, the Central Government hereby declares that the operation of all the contracts, Assurances of property, agreements, settlements, awards standing orders or other instruments in force to which the said industrial undertaking was a party or which may be applicable to it immediately before the 25th September, 1972, shall remain suspended and that all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended.

This order shall remain in force from the date of its publication in the Official Gazette upto and inclusive of the 26th June, 1982.

[F. No. 2(18)/80-CUS.]

C. K. MODI, Jt. Secy